

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022 — चैत्र 10, शक 1944

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-19/2020/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बेमेतरा	नवागढ़	नांदघाट	राजस्व निरीक्षक मण्डल बदनारा के पटवारी हल्का नंबर 24, 25, 26, 42 एवं 43 के कुल 27 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल संबलपुर के पटवारी हल्का नंबर 27, 28, 29 एवं 30 के कुल 14 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल मारो के पटवारी हल्का नंबर 31, 32, 33, 35 एवं 49 के कुल 16 ग्राम। राजस्व निरीक्षक मण्डल नांदघाट के पटवारी हल्का नंबर 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एवं 44 के कुल 26 ग्राम। अतः 22 पटवारी हल्के के कुल 83 ग्राम नवीन तहसील “नांदघाट” में शामिल होंगे।	उत्तर — तहसील पथरिया, जिला मुंगेली. दक्षिण — तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार— भाटापारा पूर्व — तहसील भाटापारा, जिला बलौदाबाजार— भाटापारा पश्चिम — तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2022

NOTIFICATION

No. F 11-19/2020/Seven-4 .— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), hereby, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government alters the limits of Tahsil specified in column (3), creates a new Tahsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bemetara	Nawagarh	Nandghat	<p>Total 27 villages of Patwari Halka No. 24, 25, 26, 42 and 43 of Revenue Inspector Mandal Badnara.</p> <p>Total 14 villages of Patwari Halka No. 27, 28, 29 and 30 of Revenue Inspector Mandal Sambalpur.</p> <p>Total 16 villages of Patwari Halka No. 31, 32, 33, 35 and 49 of Revenue Inspector Mandal Maro.</p> <p>Total 26 villages of Patwari Halka No. 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 44 of Revenue Inspector Mandal Nandghat.</p> <p>Hence, total 83 villages of 22 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Nandghat".</p>	<p>North - Tahsil Pathariya, District Mungeli.</p> <p>South - Tahsil Simga, District Balodabazar-Bhatapara.</p> <p>East - Tahsil Bhatapara, District Balodabazar-Bhatapara.</p> <p>West - Tahsil Nawagarh, District Bemetara.</p>

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.